



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख 1946 (श0)  
(सं0 पटना 461) पटना, मंगलवार, 14 मई 2024

सं० 5/एम0-706/2018-5124  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

संकल्प  
9 मई 2024

विषय :- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले सात जवानों को प्रत्येक वर्ष 51-51 हजार रुपये पुरस्कार दिये जाने के संबंध में।

विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापक संख्या-5660, दिनांक-27.05.2004 द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले सात जवानों को प्रत्येक वर्ष 51-51 हजार रुपये पुरस्कार दिये जाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-6111, दिनांक-18.05.2023 द्वारा उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-3 निहित प्रावधान को विलोपित करते हुए, प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले सात सुयोग्य पुलिस जवानों/कर्मियों का चयन करने हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के स्तर पर चयन समिति का पुनर्गठन किया गया था।

3. समीक्षा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा महसूस की गई कि चयन समिति में क्षेत्रीय स्तर से पदाधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाने की आवश्यकता है।

4. अतः विभागीय संकल्प संख्या-6111, दिनांक-18.05.2023 को अवक्रमित करते हुए, प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले 07 (सात) पुलिस जवानों/कर्मियों को 51-51 हजार रुपये की राशि से पुरस्कृत किये जाने हेतु दुगुनी संख्या (चौदह) में आरक्षी जवानों/कर्मियों की अनुशंसा गृह विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के स्तर पर चयन समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

- |       |  |   |         |
|-------|--|---|---------|
| (i)   | अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), बिहार, पटना      | — | अध्यक्ष |
| (ii)  | पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार | — | सदस्य   |
| (iii) | पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार            | — | सदस्य   |
| (iv)  | क्षेत्र में पदस्थापित वरीयतम पुलिस महानिरीक्षक | — | सदस्य   |

(v)	}	क्षेत्र में पदस्थापित 02 (दो) वरीयतम पुलिस उप-महानिरीक्षक	—	सदस्य
(vi)				

5. विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या-5660, दिनांक-27.05.2004 की कंडिका-3 निहित प्रावधान को छोड़कर शेष सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार दास,  
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 461-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>